

#### 12.09.2025

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 Tel No.022-22722039/37/3121 Security Code: 500119

Dear Sir,

#### Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of Business Standard (English and Hindi Edition) published today pertaining to 100 Days Campaign- "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and shareholder engagement to prevent Transfer of Unpaid /Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF) (Second Reminder).

The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: <a href="https://www.dhampursugar.com">www.dhampursugar.com</a>.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No.- 22787 Shares have risen as much as 53% in six months

New Delhi, 11 September

Asset management company (AMC) stocks have delivered sharp gains in the past six months, outperforming the broader market, aided by strong mutual fund (MF) inflows, robust growth in assets under management (AUM), and rising retail participation through systematic investment plans (SIPs), analysts said.

Among listed AMCs, HDFC AMC has surged 53.4 per cent, followed closely by Nippon Life India AMC (52.9 per cent), BSE data showed. Aditya Birla Sun Life AMC gained 44.3 per cent, while UTI AMC advanced 47.2 per cent. KFin Technologies rose 21.2 per cent, and Shriram AMC added 28.8 per cent. By comparison, the BSE Sensex climbed just 10 per cent over the same period.

Kranthi Bathini, director of equity strategy at WealthMills securities, said: "With rising disposable incomes, accelerating digitalisation, and savings shifting steadily from physical assets to financial instruments, Indian retail investors are becoming far more equity-savvy. Systematic investment plans, exchange-traded funds (ETFs), and real estate investment trusts (Reits) are beginning to diverge from traditional parking grounds like gold and silver. Given this environment, AMC stocks are uniquely positioned to benefit from structural tailwinds.

#### SIP momentum underpins flows

That said, despite moderation in active equity inflows, analysts believe the SIP-led resilience in industry flows sets the stage for an earnings recovery for asset managers. According to Nuvama Institutional Equities, active equity net inflows fell 25.1 per cent month-on-month (M-o-M) in August to ₹42,360 crore, largely due to a steep 49.8 per cent drop in lumpsum inflows to ₹14,100 crore. However, SIP contributions remained stable at ₹28,270 crore, down just 0.7 per cent sequentially.

"AMCs and RTAs (registrar and transfer agents) would report a recovery in earnings growth quarteron-quarter (Q-o-Q) on the back of steady inflows led by SIPs and stable equity markets. Our top picks in the sector are HDFC AMC (target price ₹6,530), NAM (₹1,010), and KFin Tech (₹1,540)," said Madhukar Ladha and Mahrukh Adajania of Nuvama in a note dated September 10. In a report on Wednesday, Meghna Luthra of InCred Research also said: "We believe this slowdown (in SIP) is transitory and will turn around once the geopolitical stress and market volatility ease."

#### What lies ahead?

While valuations of AMC stocks have run up sharply alongside a surge in investor participation, analysts remain constructive on the sector given its structural

Beats the streets

Asset management companies (As on Sep 11) 6-mth chg (%) price (₹) **HDFC Asset Management** 5,799.0 Nippon Life India AMC 818.2 52.9 1,351.9 **UTI Asset Management** 47.2 Aditya Birla Sun Life AMC 854.9 44.3 **Shriram Asset Management** 479.6 28.8 Kfin Technologies 1,106.9 21.2 **BSE Sensex** 81,548.7 10.0 Sources: Bloomberg, BSE Compiled by BS Research Bureau

growth levers. Steady SIP flows, growing retail participation, and rising share of passive funds are expected to provide a durable earnings cushion.

Luthra said, "We believe any softness in select AMC stocks on account of market volatility will give a good opportunity to add... We remain optimistic over the mid-tolong-term horizon amid improving geographic penetration as well as the rising popularity of mutual fund schemes, mainly among the young and midincome investors.

Whether the sharp rally in AMC stocks has more steam left will depend on the trajectory of equity markets and fund flows, but brokerage houses see room for further upside in key players like HDFC AMC, NAM, and KFin Tech.

Among individual stocks, NAM India (target price ₹920) remains the top pick for InCred for its consistent performance-led market share gains. The brokerage appreciates the yield protection by HDFC AMC ('Hold', target price ₹5,600), although the run-up in the stock price makes the risk-reward ratio unfavourable. "We maintain 'Add' rating on ABSL AMC (target price ₹1,000) for the slowdown in market share loss and its turnaround story. The undercurrent of likely acquisition of UTI AMC ('Add', target price ₹1,600) makes the

stock attractive," it noted. Meanwhile, Bathini said: "Although much of the recent rally is already priced in, the fundamentals rising AUM, steady retail flows, growing passive fund adoption, and operating leverage — suggest there is still room for further upside over the medium- to long-term.



#### **HEALTH POLICY PORTING BY SENIORS**

### Get written assurance on continuity benefits when switching

**HIMALI PATEL** 

A decade or so earlier, senior citizens found it difficult even to purchase a health insurance policy. Today, not only do they buy them in greater numbers, they also switch to policies offering better features. According to data from Policybazaar.com, portability among senior citizens has risen from 18 per cent in 2022-23 to 29 per cent in 2024-25.

#### Policy reforms, innovative products

The Insurance and Regulatory Authority of India (Irdai) removed the entry age for new and ported business, while also allowing continuity of benefits such as waiting periods. "The launch of dedicated plans for senior citizens, insurers offering riders that reduce the waiting period, and day-one coverage for common pre-existing diseases (PEDs) are encouraging more seniors to port," says Siddharth Singhal, head of health insurance, Policybazaar.

Hurdles seniors encounter Underwriting norms for seniors are stricter. Insurers often make them undergo extensive medical tests. "The new policy may carry a steep premium. Seniors with multiple existing conditions could be denied coverage. High-risk ailments could be excluded from coverage," says Vinita Porwal, associate director, Anand Rathi Insurance Brokers.

Documentation requirements can be heavy. Rejection rates are  $typically\,higher\,in\,this\,group.$ 

linked to an existing home loan.

often a better alternative to

high-cost personal or gold loans,

as they come with lower rates

and longer tenures," said Sid-

darth Jain, chief financial officer

at MinEMI.

Insurer

**STAR** 

CARE

**ABHI** 

**NIVA** 

**HDFC ERGO** 

Compare costs before buying

SuperStar

Ultimate Care

Optima Select

Active One Next

Reassure 3.0 Elite

What to look for Waiting periods, moratorium benefits and no-claim bonuses must be carried forward. "Before switching, get written confirmation of continuity benefits like credit for waiting periods," says Vaibhav Goyal, managing director and chief executive officer, Navi General Insurance.

Who should port?

Seniors may consider porting if

vide timely services, adequate

coverage for lifestyle diseases or

benefits," says Porwal. Rising pre-

However, porting may not suit

all. "If a senior has multiple recent

claims or critical illnesses, they

would be better off staying with

chances of porting would be slim,"

their current insurer as their

says Singhal.

OPD (outpatient department)

miums also call for a switch.

sum insured, or new features. "Porting may be considered to add

their current insurer does not pro-

Pankaj Verma, chief technical officer (products & underwriting) Zurich Kotak General Insurance Company (India), advises checking the new insurer's claim settlement ratio. The new insurer's hospital network must be strong in the customer's city.

Experts caution against pol-

Annual premium (₹)\*

30.048

35,388

40,625

41,046

44,346#

#for unlimited SI. \*Premiums are for a 60-year-old male living in New Delhi for a sum insured of ₹15 lakh. A comprehensive list of features of each policy on business-standard.com

Source: Policybazaar **Handy tips** 

Seniors must evaluate the benefits and costs of porting and only go for it if there are clear and tangible benefits. "Start the porting process 45-60 days before renewal," says Goyal. PEDs must be fully disclosed to avoid disputes at the time of claim. "Keep all medical records handy to simplify the process," savs Verma.

icies with sub-limits. "Avoid room

rent capping and disease-wise or

treatment-wise sub-limits,

especially on modern treat-

ments," says Shilpa Arora, co-

founder and chief operating

officer, Insurance Samadhan.

The policy should offer a reasonable or zero co-pay.

Arora says seniors must ensure

no deductibles or co-payments

are added to the policy without

their consent. Choosing a policy

based on price alone must be

avoided. "A cheaper plan may

come with high co-pay, strict

sub-limits," says Goyal.

room rent cap, or disease-based

On receiving the policy document, seniors must check that waiting periods and moratorium benefits have been transferred. Verma says he has come across many cases where policyholders realised upon hospitalisation that their new policy contained loopholes which they did not discover during porting.

An additional point needs to be remembered regarding continuity benefits. "These benefits only apply to the extent of the existing sum insured. Any enhanced cover may attract fresh waiting periods," says Arora.

This writer is a Mumbai-based independent journalist.

# Home loan topups for education, health, and more

For many Indians juggling longterm financial goals, a topup home loan often emerges as a smarter borrowing option than personal or gold loans. Experts say that they are cheaper, come with longer repayment windows, and offer more flexibility.

What is a home loan topup?

A topup is an additional loan

Read full report here: https://mybs.in/2eq44et

Borrowers with a clean repay-The topup amount depends ment record and at least six months of history are generally eligible."Topup home loans are

largely on the loan-to-value (LTV) ratio, property valuation, and repayment behaviour. "If a property is worth ₹1 crore and the borrower still owes ₹50 lakh, a topup of ₹25-₹30 lakh be sanctioned, may subject to income eligibility," explained Jain.

How much can you borrow?

#### • Home renovation or interiors

- Children's higher education
- Medical expenses
- Business funding

Jain cited the case of a salaried borrower who needed ₹12 lakh for his daughter's overseas education. Instead of a personal loan at 15 per cent, he secured a top-up at 9 per cent, saving on interest.

COMPILED BY AMIT KUMAR

#### THE INDIAN PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED

CIN: U92140MH1969GAP014359 Registered Office: 208, Golden Chambers, New Andheri Link Road, Andheri (West) Mumbai – 400 053. Telephone No.: 6972 9999/4606 7653 Website: www.iprs.org Email: responseagm@iprs.org

Addendum to the Notice of 55th Annual General Meeting The Indian Performing Right Society Limited ("the Company") had issued Notice for the 55" Annual General Meeting (55" AGM) of the Company Scheduled to be held on Tuesday, 23" September, 2025 at 11:30 A.M. I.S.T. at ISKCON's Auditorium, Hare Krishna Land, Next to Hare Krishna Temple, Juhu, Mumbai–400049. The Notice of 55" AGM have been sent only through electronic mode to the members of the Company on 26th August, 2025 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs. Members are informed that subsequent to dispatch of Notice of 55th AGM as mentioned above, the Company has received nomination from one Author Composer Member under Section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for election as Author Composer Director of the Company Accordingly, in the Addendum to the Notice of 55th AGM a resolution has been incorporated vide Item No 14 for election of Author Composer Director on the basis of the nomination received from the Author Composer Member as mentioned above. The Addendum to the Notice for 55th AGM and Explanatory atement has been circulated through electronic mode to the m Company on 10<sup>th</sup> September 2025.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, the Company has made arrangements for its members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM and Addendum to notice by electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") and e-voting at the meeting venue by tabs/laptops during the AGM to its members in respect of the resolutions as proposed in the Original Notice of 55th AGM dated 31st July 2025 and Addendum to the Notice of 55th AGM dated 9th September, 2025. The Addendum to the Notice of 55th AGM is also available on the Company's

website at www.iprs.org and website of CDSL https://www.evotingindia.com/

By Order of the Board For The Indian Performing Right Society Limited

Javed Akhta Date: 11th September, 2025 DIN: 00112984

#### **SPML INFRA LIMITED** SPML CIN: L40106WB1981PLC276372

Registered Office: 22, Camac Street, Block-A, 3rd Floor, Kolkata-700016 Tel.: 033-40091200 : E-mail: cs@spml.co.in: Website: www.spml.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the

Companies Act, 2013 ("the Act") read with the rules made thereunder and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, SPML Infra Limited proposed the resolutions for approval of Members by Postal Ballot.

The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, read with earlier Circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard ("MCA Circulars"), applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and other applicable laws and regulations, that the Company seeks approval of the Members, via Postal Ballot through remote e-voting process ("e-voting"). Accordingly, Company has sent the postal ballot notice by e-mail to all the Members, on Thursday, 11th September, 2025 whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners on Friday, 5th September, 2025.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e Friday, 5<sup>th</sup> September, 2025 may cast their vote electronically (remote e-voting only) on the businesses as set out in the Notice of postal ballot through electronic voting stem of National Securities Depository Limited

The Company has appointed Mr. Tumul Maheshwari, Company Secretary in practice, having Mem. No. 16464 as a Scrutiniser for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered e-voting facility, through National Securities Depositories Limited (NSDL) to enable the shareholders to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. Shareholders can cast their vote online from 9.00 a.m. (IST) on Friday, 12th September, 2025 to 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 11th October 2025.

Notice of Postal Ballot is also available on website of the Company, www.spml.co.in and NSDL, www.evoting.nsdl.com. Shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice by e-mail may obtain the same by sending their request to our RTA/NSDL. Results of the voting will be announced by Tuesday, 14th October, 2025 and hosted on the website of the Company at www.spml.co.in and on NSDL's website www.evoting.nsdl.com and also be communicated to NSE and BSE, where the shares of the Companies are

In case of queries relating to remote e-voting / e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of NSDL or contact at toll free no. 1800-1020-990 or send a request to www.evoting.nsdl.com please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Pare Mumbal-400013, email: evoting@nsdl.co.inTel: 1800 1020 990/1800-224-430

For SPML Infra Limited

Swati Agarwal Date: 11th September, 2025 (Company Secretary) Place: Kolkata

#### JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED (D.P. JINDAL GROUP COMPANY)

CIN: L27201MH1983PLC233813 Registered Office: Pipe Nagar, Village- Sukeli, N.H.17, B.K.G. Road,

Taluka Roha, Distt. Raigad - 402126, Maharashtra; Phone: 0124-4624109 E-mail: secretarial@iindaldrilling.in; Website: www.jindal.com Corporate Office: Plot No. 30. Institutional Sector 44. Gurugram-122003. (HR) Interim Corp. Off.: Plot No.106, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003 (HR)

> **OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMENT** OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to Securities Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders are informed that, a special window is opened for a period of six months from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgment of transfer deeds. This facility is available only for transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 that were rejected/returned due to deficiency in the documents/ process or otherwise, can be re-lodged after rectifying the errors during this period.

ligible Shareholders can take this opportunity and re-lodge request for registration of transfer by furnishing necessary documents to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com or at their office at Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or can write to the Company at secretarial@ jindaldrilling.in for further assistance.

Please note that transfer will be processed only in demat mode and Shareholders must follow the prescribed process for transfer-cum-demat requests

For Jindal Drilling and Industries Limited

Place: Gurugram Date: 11.09.2025

Binaya Kumar Dash JINDAL, Company Secretary

### DHAMPUR

#### **DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED**

Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 CIN- L15249UP1933PLC000511, Ph: 011- 41259400 Email Id: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com

Notice to shareholders of Dhampur Sugar Mills Limited 100 Days Campaign- "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and shareholder engagement to prevent Transfer of Unpaid /Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF). (Second Reminder Pursuant to Investor's Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate affairs (MCA) circular dated 16 July, 2025 for KYC and other updation and Shareholder Engagement to Prevent Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividends to IEPF, a 100 days Campaign– "Saksham Niveshak" has been launched, targetin shareholders whose dividends remain unpaid/unclaimed.

Ne urge the shareholders to avoid procedural hassles and to prevent Transfer of Unpaid /Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF) and to claim the outstanding dividend amount before it is transferred to the IEPF Please send us the following requisite documents either by sending manual locuments to our Registrar & Share Transfer Agent or Company at the addresse: given below or through an email:

A formal request letter duly signed by holder and all the joint holders, if any ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and

iii) Copy of Cancelled Cheque or Updated Client Master List. We request the Shareholders to kindly register/update their KYC and bank accoun

letails with Registrars to the Issue and Share Transfer Agent (RTA)/their Depository Participant to receive the dividend electronically Following documents are required to update the KYC, for remittance of dividend.

For Shares held in Demat Mode | For Shares held in Physical Mode

articulars as per KYC Self-attested PAN Card & Address

Self-attested copy of Client | Form ISR-1 duly filled along with supporting | Master List that contain updated | documents for updating KYC (alongwith sel attested copy of PAN and Aadhar of Shareholder. Form ISR-2 - Confirmation of signature of security holder by the Banker -(Each and every column to be filled alongwith original cancelled cheque with our name(s) printed on it .)

ISR-3 - Declaration form for Opting-out of ISR-13 - Nomination (Alongwith Nominee and

Witness PAN Card and Aadhar Card) The details of Unpaid and Unclaimed Dividend from Financial Year 2019 to Financia ear 2023, has been made available on the website of the Company a www.dhampursugar.com

Aparna Goe Company Secretary Membership No.: A22787

For Dhampur Sugar Mills Limited

### TENDER CARE —

— Advertorial

#### **BANK OF INDIA PARTNERS** WITH CASHINVOICE TO BOOST **SUPPLY CHAIN FINANCE**

In a significant step towards strengthening financing opportunities for businesses across India, Bank of India (BOI), having more than 5300 branches across the country, has entered into a strategic partnership with M/s Indinvoice Tech Solutions Pvt. Ltd. (Cashinvoice) under its Supply Chain Finance (SCF)

ty to structured financing solutions for corporates, dealers, and



chain ecosystem. Speaking on the occasion, Mr. Vinayak Shukla, General Manager - MSME, Bank of India, said: "Through this partnership with Cashinvoice, we aim to leverage their digital expertise and market insights to offer seamless financing solutions to corporates and their supply chain partners. This collaboration underscores our commitment to innovation and customer-

centricity in the MSME and corporate financing space." Commenting on the partnership, Mr. Arun Poojari, MD & CEO, M/s Indinvoice Tech Solutions Pvt. Ltd., said: "We are excited to collaborate with Bank of India under the Supply Chain Finance framework. Our technology-driven sourcing and credit facilitation capabilities are uniquely positioned to complement BOI's financial strength and wide outreach. Together, we aim to deliver faster, more efficient, and scalable financing solutions to corporates, dealers, and vendors, thereby bridging the working capital gap across industries.

#### **BANK OF BARODA AWARDS PRIZE TO CHANCELLOR'S GOLD MEDALIST** MS. NAINCY AT DR. A.P.J. ABDUL KALAM **TECHNICAL UNIVERSITY CONVOCATION**

Bank of Baroda, reaffirming its commitment towards encouraging academic excellence and empowering youth, felicitated Ms. Naincy, a student of Pranveer Singh Institute of Technology, Kanpur, at the 23rd Convocation of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU),

Uttar Pradesh, organized under the presidency of Smt. Anandiben Patel, Hon'ble Governor of Uttar Pradesh and Chancellor of the University.

Ms. Naincy, who secured the First Position and was conferred with the Chancellor's Gold Medal, was honoured with a cash prize of Rs.31,000/- (Rupees Thirty One Thousand only) by Bank of Baroda in recognition of her outstanding academic performance under its flagship initiative, Baroda Achievers Award. On the occasion, Shri Shailendra Kumar Singh, General Manager & Zonal Head, Bank of Baroda, Lucknow Zone, said, "Bank of Baroda takes pride in supporting and recognizing the remarkable achievements of meritorious students. Through the Baroda Achievers Award, we aim to inspire young minds to pursue academic excellence and contribute towards nation-build-

The convocation was graced by Group Captain Shubhanshu Shukla, Indian Air Force (Chief Guest); Er. Ashish Patel, Hon'ble Minister of Technical Education, Uttar Pradesh (Guest of Honour); and Prof. Jay Prakash Pandey, Vice Chancellor, AKTU, along with other distinguished dignitaries.

#### **UNION MINISTER SHRI JITAN RAM MANJHI INAUGURATES NSIC'S 70TH FOUNDATION DAY: REAFFIRMS COMMITMENT TO ATMANIRBHAR BHARAT**

Shri Jitan Ram Manjhi, Hon'ble Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises inaugurated NSIC's 70th Foundation day celebrations at the Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi. Addressing the gathering, Shri Jitan Ram Manjhi, Hon'ble Minister congratulated NSIC on completing seven

decades of dedicated service to the MSME sector and lauded its role as a catalyst in strengthening and nurturing India's vibrant micro, small and medium enterprises. He emphasized the impor-



tance of creating widespread awareness of NSIC's schemes among entrepreneurs and highlighted the need to provide comprehensive handholding support to MSMEs, particularly in the domains of capacity building, innovation support, and digital adoption.

The 70th Year celebration also featured a Foundation Day Lecture delivered by Dr. V. Anantha Nageswaran, Chief Economic Advisor to the Government of India. On this occasion, Dr. S. S. Acharya, Chairman and Managing Director, NSIC, reaffirmed NSIC's commitment to advancing the vision of Atmanirbhar Bharat, emphasizing that NSIC will continue to play a pivotal role in enabling the growth, competitiveness and resilience of MSMEs in India. He also expressed his heartfelt gratitude to all stakeholders who have been instrumental in NSIC's journey over the past seven decades. The event witnessed the august presence of Shri S.C.L. Das, Secretary (MSME), Dr. Rajneesh, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Ms. Mercy Epao, Joint Secretary (MSME), Dr. S. S. Acharva, CMD, NSIC, besides Directors of NSIC senior officials from the Government of India, representatives of NITI Aayog, Industry Associations, and MSME entrepreneurs.

#### IFCI SIGNS MOU WITH IMD AND TERI TO STRENGTHEN ESG ADVISORY SERVICES

IFCI Limited (IFCI), in a step towards strengthening climate risk assessment and advancing ESG Services in India. sianed Memoranda of Understanding with the India Meteorological Department (IMD)



The MoU signing ceremony was graced by Shri Rahul Bhave. MD&CEO, IFCI; Dr. Mrutyunjay Mohapatra, Director General, IMD; Dr. R.K. Giri, Scientist-F & Head, Organisation Section, SAT-MET, IMD; Dr. Dipankar Saharia, Senior Director - Social Transformation & Strategic Alliance, TERI; and Dr. Amit Kumar Thakur, Associate Director & Head CSR, TERI. The event was also attended by senior officials from IFCL IMD, and TFRI The collaboration with IMD will enable IFCI to access critical meteorological datasets to strengthen its ESG services including in-house climate risk assessment tools. The collaboration covers climate hazard data across categories, both historical and forecasted data (for different time horizons), and granular datasets at district, city and station levels. The geographic

scope extends across India, South Asia, and other available





Place : New Delhi

Dated: 11.09.2025











#### इंडसइंड बैंक, 499, प्रथम तल, कोहट एन्क्लेव पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034 **Indusind** Bank

यह सचित किया दाता है कि नीचे वर्णित उधारकर्ताओं ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से स्वर्ण ऋण सविधा व ला भू कर जिल्ला हो है। ला भू उठाया है। ऋण की पुनर्मुगतान में विफलता और अनुबंध की शर्ता और नियमों के उल्लंघन के कारणा इन् ऋण के विरुद्ध बंधक रखे गए स्वर्ण अब सार्वजनिक बोली के लिए खोले जाने वाले हैं। अनुपातिक नीलामी की प्रक्रिया /बीली राशि उनके/ उधारकताओं के संबंधित ऋण खाते और संबंधित ऋण खाते। जाएगी। स्वर्ण जो रखा गया है, उसे '' जो है जहां है'', जो है जैसा है और वहां जो कुछ मी है'' आधार पर नीलाम् किया जाएगा। निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को इंडसइंड बैंक कि वेबस <u>www.indusind.com</u> और स्वीकृत नीलामी सेवा प्रदाता की शर्तों और नियमों के पालन करने व आधस्यकर्ता है। नीलामी का आयोजन इंडसइंड बैंक अनुमोदित सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया लिमिटेड के माध्यम से , उनके वेव

पोर्टल www.bankeauctions.com द्वारा किया जाएगा बोली दस्तावेज, घोषणा, सामान्य शर्ते और नियम, ये संदर्भ के लिए इंडसइंड बैंक कि वेबसाइट

www.indusind.com पर और सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात् www.bankeauctions.com प

्र गाधिकृत अधिकारी बिक्री के किसी भी शेर्त और नियम को संशोधित या परिवर्तीत का अधिकार अपनी पर्र

विवेकधीनता में सुर्रा	कधीनता में सुरक्षित रखता है।						
जीएल खाता सं.	ग्राहक का नाम	शाखा	शाखा संपर्क सं.	ग्राम में स्वर्ण का भार			
704001177289	शफीक	इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन	8860832367	113,3 ग्राम			
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -							

ली जमा करने की अंतिम दिनांक इस सूचना की दिनांक से 16.09.2025 का अपर्राह्म 05:00 बजे तक नीलामी की दिनांक 17.09.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे। उधारकर्ता नीलामी के प्रारंभ होने से पहले पूरे ऋण को चुकाने का विकल्प रखते हैं। ऐसा करने पर व इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शर्तों और नियमों के अनुसार बंधक रखे गए स्वर्ण को वापस ले सकते हैं।

दिनांक : 12.09.2025 स्थान : नई दिल्ली/ उत्तर प्रदेश प्राधिकृत हस्ताक्षरी इंडसइंड बैंक लिमिटेड



#### धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, यु.पी—244304 CIN: L15100UP2020PLC136939. फोन: +91-7302318313 ई—मेलः investors@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com

### शेयरधारकों को सूचना 100 दिन का अभान—सक्षम निवेशक

कॉर्पोरेट मामजों के मंत्रालय ("एमसीए") और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफए") द्वारा शुरू किए गए सक्षम निवेशक अभियान के संदर्भ में, हम सभी शेयरधारकों

(1) अपना केवाईसी (स्थायी खाता संख्या), बैंक अधिदेश (बैंक का नाम. शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड), नामित व्यक्ति और संपर्क जानकारी (डाक पता, ईमेल और टेलीफोन नंबर) अपडेट करें;

(2) अपनी होल्डिंग्स सत्यापित करें और किसी मी अवैतनिक लाभांश या आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों का दावा करें। इसके अलावा, शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक अपने अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) में स्थानांतरित होने से रोका जा सके;

उपरोक्त के लिए या अवैतनिक लाभांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का सामन करने पर नीचे दिए गए विवरण पर कंपनी / रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")

कंपनी के साथ पत्राचार श्रीमती आशु रावत, कंपनी सचिव धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड. द्वितीय तल, 201 ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली - 110020 फोनः 011-6905 5200, ईमेलः investors@dhampur.com

आरटीए के साथ पत्राचार मेसर्स अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड अलंकित हाउस, 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055

फोनः 011 — 42541234, 23541234, ई-मेलः rta@alankit.com info@alankit.com

> कृते धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हस्ता./-

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 12 सितम्बर, 2025



ांजी. कार्यालय : पीएनए हाउस, पहली मंजिल, 57 व 57 ∕ 1, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुंबई 400093

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम नं. 2002 का 54) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित् (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम् 3 के साथ पठित् धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **09.06.2025 व 10.06.** अधोहस्ताक्षरी ने उंक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 09.06.2025 व 10.06. 2025 तक उक्त सूचना में वर्णित राशि रु. 3,13,51,480.67 /— (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इक्यावन हजार चार सौ अस्पी व सड़सठ पैसे केवल) का मुगतान करने के लिए ऋण खाता 
छा DBC02823N & DDW00349N के तहत ऋणी और सह—ऋणी भैसर्स मारुति एग्रो 
इमूलिपिण्यर इंडस्ट्री—इसके पार्टनर श्री राहुत गुप्ता व श्री अभिषेक गुप्ता (ऋणी), भैसर्स 
मारुति पॉलीमर्स इंडस्ट्री—इसके पार्टनर श्रीमती पूजा गुप्ता व श्रीमती डिम्पी गुप्ता, श्री 
राहुल गुप्ता, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री डिम्पी गुप्ता, श्रीमती पूजा गुप्ता व श्रीमती वीना गुप्ता 
(सह—ऋणी) को बुलाने के लिए यहां पंजीकृत डाक के माध्यम से माग सूचना दिनांक 26.06. 
2025 को जारी को थी। ऋणी / सह—ऋणी(यों) राशि का भुग्तान करने में असफल रहे, 
एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त 
नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त नेयमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **06 सिंतबर, 2025** को कब्जा ले लिया है विशेष रूप से ऋणी / ऋणियों और सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन लागतों, शुल्कों, उसपर व्ययों के सहित उसपर भावी ब्याज और 09.06.2025 व 10.06.2025 तक राशि **र** 3.13.51.480.67 🖊 — (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इक्यावन हजार चार सौ अस्सी व सडसट

**पैसे केवल)** के लिए इंडसइंड बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति—1: निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी 54, के पूरे ग्राउंड फ्लोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फर्ज-1, अशोक ।वहार के रूप में ज्ञात, फर्ज-1, ।वल्ला 110052 के सभी मीग व शेष छत / टेरिस अधिकारों के बिना, क्षेत्र माप 167.22 वर्ग मीटर, पार्टिशियन डीड के तहत, 31.8. 020 को रिजस्टर, रिजस्ट्रेशन नं. 7191, सुश्री वीना गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : ब्लॉट नं. 53, उत्तर : सड़क 30', पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 15' संपत्ति-2: निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी 54 के पूरे फर्स्ट फ्लोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फंज-1, अशोक विहार के रूप में ज्ञात, फंज-1, दिल्ली 110052 के सभी भाग व शेष, तीसरी फर्ज-1, अशोक ।वहार के रूप में ज्ञात, फर्ज-1, दिल्ली 110052 के स्मी मीग वे शर्ष, तासरी मंजिल के खाली छत्त / टेरिस अधिकारों के 25 प्रतिशत शेयर के सहित, क्षेत्र माप 167.22 वर्ग मीटर, गिपट डीड के तहत, 23.12.2021 को रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन नं. 17866 सुश्री पूजा गुप्ता व सुश्री डिम्पी गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : प्लॉट नं. 53, उत्तर : सड़क 30', पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 15'

दिनांक : 06.09.2025 स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स इंडसइंड बैंक लि

## CSB Bank

सीएसबी बैंक लिमिटेड आंचलिक कार्यालयः प्रथम और दूसरा तल, सनातन धर्म वर्ल्ड युनिवर्सटी ट्रस्ट

20, साउथ पटेल नगर, दिल्ली–110008 परिशिष्ट ।∨ ानियम 8(1) देखें। कब्जा नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (200) का 54)] के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप ग अधोहस्ताक्षरी ने **मांग नोटिस दिनांकित 11.06.2018** जारी किया था जिसमें कर्जदार **श्री राजीव शंकर** तिवारी पुत्र श्री उमेश तिवारी, सी-29, पहली मंजिल, गली नंबर 13, शशि गार्डन, मयुर विहार, फेज 1, नई दिल्ली-110091 और श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी श्री राजीव शंकर तिवारी सी-29, पहली मंजिल, गली नंबर 13, शशि गार्डन, मयुर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110091 से नोटिस में उल्लिखित दिनाव 31.05.2018 को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि ७. 98.06.515 ∕- दिनांक 01.06.2018 से प्रभाव मासिक शेषों के साथ वार्षिक 12.74% की दर से भावी ब्याज और पुनर्भुगतान के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने की मांग की गई।

(अचल संपत्ति हेत)

कर्जदार और जमानती के राशि चुकाने में असफल रहने पर कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का 6 सितंबर, 2025 को कब्जा ले लिया है।

विषेश रूप से कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति से कोई भी लेन-देन दिनांक 31.05.2018 को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि रु. 98,06,515/- दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी मासिक शेषों के साथ लागू वार्षिक ब्याज दर से ब्याज और पुनर्भुगतान के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, के लिए **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के प्रभार के

।प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (८) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मेसर्स पिरामिड प्रॉपमार्ट के नाम में इसके प्रोपराइटर श्री राजीव शंकर तिवारी के माध्यम से, गाटा संख्य 377, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गाँव सिमरौठी, परगन– टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश स्थित प्लॉट माप 1.591 हेक्टेयर के समस्त भाग व खंड के स्वामित्व विलेख के जमा द्वारा बंधन, जिसक विस्तृत विवरण बिक्री विलेख संख्या 5752 / 12 दिनांक 24.05.2012 में दिया गया है और **जिसकी सी**म **निम्नानुसार है:– पूर्व:** गाटा संख्या 372 से; **पश्चिम:** सतेंद्र की कृषि भूमि; **उत्तर:** अर्चना की कृषि भूगि दक्षिण: मीन की कृषि भूमि

दिनांकः 06.09.2025 प्राधिकृत अधिकारी (सीएसबी बैंक लिमिटेड राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के समक्ष नई दिल्ली सीपी (सीएए) नं. 7 / एनडी / 2025

सीए (सीएए) नं. 45 / एनडी / 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230—232 और अन्य लागू प्रावधनों के

मामले में कंपनी (समझौता व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पढे और

फाइब्रोस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेड

......हस्तांतरणकर्ता / याचिकाकर्ता कम्पनी नं.

बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ....हस्तांतरिती / याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 2

(संयुक्त रूप से "याचिकाकर्ता कम्पनियां") याचिका की सूचना

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत फाइब्रोस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेड (इस्तांतरणकर्ता / याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 1), के साथ बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती / याचिकाकत कम्पनी नं. 2) के बीच व्यवस्था की योजना के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230—232 के अंतर्गत 01 सितम्बर, 2025 को एक याचिका प्रस्तुत कि गई थी सचना जारी की गई और कथित याचिका पर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के समक्ष सुनवाई की तिथि 27 अक्टुबर, 2025 निर्धारित

कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छक हो वर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को अपने आश्रय की सचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो (2) दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्त के पास भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छक है त विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता द्वारा याचिका की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध

अधिवक्ता अरूण सक्सेन तिथि : 11.09.2025 सक्सेना एंड सक्सेना लॉ चैम्बर एडवोकेटस एंड अटॉर्नी याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्त 602–603, नई दिल्ली हाउस 27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 र्ड मेल आईडी : advisor@sslclegal.com फोन : 011-4304499



**हिन्दुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालयः** 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 तथा

शाखा कार्यालयः एफ8, पहली मंजिल, महालक्ष्मी टावर, सेक्टर 4 वैशाली. गाजियाबाद-201010 अधिकृत अधिकारीः श्री अंकित गर्ग, सम्पर्क सं.: 9654060881 ईमेल आईडीः ankit.garg@hindujahousingfinance.com

निजी समझौता बिक्री के माध्यम से बिक्री की सूचना वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) है अधीन एचएचएफएल के पास प्रभारित चल एवं अचल सम्पत्तियों की बिक्री

गएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तह अनुसुवित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बड़े पैमाने पर आग जनता को सूचित किया जाता है कि अपनी बकार रकम की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकृत नियमों के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से अनुसूची उल्लेखित प्रत्याभृत संपत्ति 'जैसा है जहाँ है' और 'जैसा है जो है' के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के मानक नियम और शर्त निम्नानुसार हैं:

निजी समझौते के माध्यम से 'जैसा है जहाँ है' और 'जैसा है जो है' के आधार पर बिकी की जाएगी। िर्मा समझार के नाज्य से जाते हैं कहा है जाते हैं कि जाते हैं के जाते हैं नहीं की आदि के अगले होंगे के किए एचएचएफएल के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को बिक्री मूल्य का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी। क़ेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित रकम की 10% रकम जमा करनी होगी, जिसे उपरोक्त अनुच्छेद (2)

के अनुसार जमा किए गए 25% की शेष राशि के तहत समायोजित कर दिया जाएगा। य जपुत्रार जाना कर १५ ६ ८०% का राप सारा क्र स्वरूप समावाजाय सर प्रचा जानुसार इयरोक्त अनुरुक्ष्य (२) के तहत आवयरक राशि का मुगतान करने में विफल रहने पर, पहले से मुगतान की गई रकम सहित आवेदन के साथ जमा की गई 10% राशि जब्द कर ली जाएगी। एबएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ मुगतान की गई

10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ।००० रास्त ।१९११। व्यक्षभा ब्याजा क वाध्यस कर दो जाएगो। संपत्ति एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणभारों के साथ बिक्री की जा रही है। अधिकृत अधिकारी/प्रत्याभृत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावो/अधिकारो/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

केता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौता के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर यथोधित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंघ में अधिकृत अधिकारी/ प्रत्यामृत ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। एचएचएफएल के पास बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार

पुराबार है। एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में एचएचएफएल सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगी। इच्छुक पार्टियां आगे के विवरण/सम्प्टीकरण तथा दिनांक 26.09.2025 को अथवा उससे पहले अप आयेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया दिनांक 27.09.2025 क

क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्कों क

वहन करना हागा। . बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। अनुसूची सम्पत्तियों (प्रत्याभूत सम्पत्ति) का विवरण

जुरुषा राजारावा (त्ररामूरा समारा) का विवास ब्लॉक ए सरला विहार इदबल ग्राम लोनी में स्थित खसरा सं. 991 मिन में 60 वर्ग यार्ड यानी 50.166 वर्ग मीटर परिमाप की मूर्मि **आरक्षित मूल्यः रु. 650000**/- (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)

छात के अधिकार के बगैर दूसरी मंजिल पर फ्लैट सं, एसएफ-1 (सामने की ओर आरएचएस फ्लैट) आरक्षित मूल्यः रु. 970000/- (रुपये नी लाख सत्तर हजार मात्र)

ग्राम लोनी, एसएलएफ वेद विहार के नाम से ज्ञात कॉलोनी परगना लोनी गाजियाबाद में स्थित खसरा सं 1305 के हिस्से में प्लॉट सं. एफ-53 पर निर्मित 400 वर्ग फीट परिमाप के सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल क छत के अधिकार के बगैर दूसरी मंजिल पर फ्लैट सं. एसएफ-3 (एलआईजी) आरक्षित मूल्यः रु. 600000/- (रुपये छह लाख मात्र)

अधिकृत अधिकारी, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटे तारीखः 12.09.2025, स्थानः गाजियाबाद

**DHAMPUR** 

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यातयः धामपुर, ढिस्ट्रिक्ट बिजनीर-246761, यु.पी कॉर्पो कार्यातयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला फेज-III, नई दिल्ली-110020 CIN-L15249UP1933PLC000511, फोनः 011-41259400

र्डमेल आईडीः investordesk@dhampursugar.com

वेबसाइटः www.dhampursugar.com

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए सूचना निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावाकृत लामांश के हस्तांतरण को

रोकने हेतु केवाईसी और अन्य संबंधित अपडेट तथा शेयरधारक सहभागिता हेतु 100 दिवसीय

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) वं परिपत्र दिनांक 16 जुलाई, 2025 के अनुसरण में अदत्त / अदावाकृत लाभांश का आईईपीएफ में

इस्तांतरण को रोकने हेतु केवाईसी और अन्य अपडेट तथा शेयरघारक सहभागिता हेतु 100 दिवसीय

भ्रभियान— "सक्षम निवेशक" प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य उन शेयरघारकों को लक्षित

हम शेयरघारकों से प्रक्रियागत परेशानियों से बचने एवं निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

अदत्त / अदावाकृत लाभांश के हस्तांतरण को रोकने तथा बकाया लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने से पहले दावा करने का आग्रह करते हैं। कपया

हमें निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ या तो नीचे दिए गए पते पर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर

हम शेयरधारको से अनुरोध करते हैं कि कृपया लागांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए इश्यू

के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास अपना केवाईसी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

यदि पहले से नहीं किया गया है तो लामांश के प्रेषण हेतु केवाईसी अपडेट करने के लिए

क्लाइंट मास्टर लिस्ट की फॉर्म आईएसआर—1, केवाईसी अपडेट करने के लिए

स्व—सत्यापित प्रति जिसमें केवाईसी के | सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत मरा हुआ (शेयरधारक

स्व-सत्यापित पैन कार्ड और पते का फॉर्म आईएसआर-2 - बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के

वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक अदत्त / अदावाकृत लामांश का विवरण कंपनी की

के पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रति सहित)।

हस्ताक्षर की पुष्टि – (प्रत्येक कॉलम आपके नाम सहित मूल रद्द किए गए चेक के साथ भरा जाना है।)

आईएसआर-3 - नामांकन के विकल्प के लिए घोषणा

आईएसआर—13 — नामांकन (नामित और गवाह के पैन कार्ड और आधार कार्ड सहित)

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

हस्ता./-अपर्णा गोयल

सदस्यता सं. ए22787

धारक और सभी संयुक्त धारकों, यदि कोई हो, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक

रांसफर एजेंट या कंपनी को मैन्युअल रूप से भेजें या ईमेल के माध्यम से भेजें:

"सक्षम निवेशक"। (दूसरा अनुस्मारक)

(ii) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व—सत्यापित प्रति: और

) रद्द किए गए चेक या अपडेटेड क्लाइंट मास्टर लिस्ट की प्रति।

डीमैट मोड में घारित शेयरों के लिए | भौतिक मोड में घारित शेयरों के लिए

वेबसाइट www.dhampursugar.com पर उपलब्ध करा दिया गया है।

करना है जिनके लाभांश अदत्त/अदावाकृत है।

अनरोध पत्र।

नेम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

सार्वजिनिक सूचना
आम जनता को स्वित किया जाता है कि चित्रगुप्त
भटनागर और मेघा मटनागर प्लॉट संख्या 229, क्षेत्रफल
१८5.40 वर्ग फुट, 06वां पार्क व्यू गौर पमुना सिटी,
पॉकेट-03, मोरजापुर, सेक्टर-19, ग्रेटर नोएडा, उत्तर
प्रदेश के उप पड़ा विलेख विनांक 24.06.2022 के माध्यम
सं माजिक थे और मेघा मटनागर की मृत्यु 02.04.2024 को
हो गई, उनकी मृत्यु के बाद उनके पति चित्रगुप्त मटनागर
हस्तांतरण पत्र विनांक 29.05.2025 के अनुसार उपरोक्त
सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम स्वर्ण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम सूर्यण संपत्ति के माजिक बन गए और अब, चित्रम द्वारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति में कोई अधिकार/ वित रचामित्त है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अघोहस्ताक्षरी को नीचे विर गए पत्ते पर लिखित रुप में वर्तमान से 15 दिनों के भीतर सुचित करें।

बरिष्ठ विद्या प्रवंक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स बी-20, द्वितीय तल, गोएडा वन, टावर-बी, सेक्टर-62, गोएडा, उत्तर प्रदेश-201309 ईमेल आईबी-ncr@northeye.coin सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय मूचण मारद्वाज और श्रीमती उचा विजय भारद्वाज साधना एन्क्लेव, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 23 की निर्मित पूरी दूसरी मंजिल के पूर्ण मालिक हैं (जिर इसके बाद 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा) संपूर्ण निर्मित संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज जैसे कि स्थायी उप संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज जैसे कि स्थायी उप पृष्ठा विलेख दिनांक 30.03.1968, मूल म्यूटेशन पत्र दिनांक 10.01.12. दिनांक 19.09195, मूल म्यूटेशन पत्र दिनांक 01.12. 2000, मूल इस्तांतरण विलेख दिनांक 19.02.2001, और मूल जीपीए दिनांक 28.07.2008 और विक्रच कर्म दिनांक 28.07.2008, जो वर्तमान में सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे खो गए हैं, गुम हो गए हैं। इन उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में एक गुमशुरानी हिंगी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस अपराध शाखा में L.R. No. 319892342025 दिनांक 11.09.2025 को दर्ज की गई है। मालिक ने दाता किया है कि उन्तर संपत्ति सभी भारों से मुनत है। और उन्होंने उन्तर संपत्ति की बिक्री के लिए श्रीमती चाफ खोसता के साथ एक बिक्री समझौत के हो नोलिक में दोता क्यार विकास के स्विक्ष के लिए श्रीमती चारु खोसला के साथ एक बिक्री के लिए श्रीमती चारु खोसला के साथ एक बिक्री समझौते निष्पादित किया गया है, जो मारतीय स्टेट बैंक, एचएलसी थापर हाउस, जनपथ नई दिल्ली से आवास ऋण या ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से संपत्ति पर बंचक या अन्यथा एक मार बनाने का इरादा रखता है। किसी भी व्यक्ति या वित्तीय जो उपरोक्त खोए हुए दरतावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या हित का दावा करता है, या कोई आपित रखता है, तो इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकाशन की दिनांक से 07 दिनों के भीतर उपरोक्त एसबीआई शाखा के साथ—साथ में में पत्ति पत्ती वांका के संबंध में पत्ती वांका के संबंध में साथ स्वामाना माना जाएगा, तथा संपत्ति का स्वामित स्पष्ट, विक्रय योग्य, दोषों या मारों से मुक्त माना जाएगा। वानीत त्रिपाठी, अधिवक्ता सुना—जा जाएगा। चननीत त्रिपाठी, अधिवक्ता पर्सा—53, जयपुरिया सनगराइज जाएगा। खुला माना जाएगा। नवनीत त्रिपाठी, अधिवक्त एससी—53, जयपुरिया सनराइज प्लाजा इंदिरापुरम, गाजियाबाद, मोबाइल नं. 968906671

#### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Mittu Mongia, son of Shri Sundar Dass, resident of FW03 302B M3M GOLF ESTATE SECTOR 65 Gurgaon, intends to purchase the property described herein below from Arvind Agarwa son of Vipin Chandra Agarwal and Mrs. Kavita residents of B-30 Brii Vihar Pitampura Delhi 110034. Property Description:

ndependent residential house bearing No C 134 Mayfield Garden Sector 50 Gurgaon Haryana, admeasuring 275 sq. yards, along with all rights, title and interest therein

Any person(s), institution(s), bank(s), authority or entity having any claim, right title, interest, lien, mortgage, charge, lease enancy, or objection whatsoever in respec of the said property is hereby called upon to make the same known in writing to the undersigned within 10(Ten) days from the date of publication of this notice.

If no claim is received within the stipulated period, it shall be presumed that the said property is free from all encumbrances claims, demands, disputes, attachments litigation, mortgages, charges or liens of any nature, and my client shall proceed with the transaction accordingly.

Advocate Aniu Sharm Mail id: advanjusharmagurgaon@gmail.com Phone No:- 9416768755

## यूको बैंक 🔷 UCO BANK

शाखा कार्यालय : लोहारू (2488) जनपद भिवानी, हरियाणा पिन – 127201 परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें) अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

**जबकि**, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) के अंतर्गत यूको बैंक लोहारू के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पिठत होता 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, <mark>दिनांक 31—05—2025 को मांग सूचना जारी कर ऋणकर्ताओं</mark> श्री राम बिलास पुत्र श्री याद राम, निकट वाटर टैंक, फरटियाँ रोड, लोहारू, जिला भिवानी 127201 और धनपति पत्नी याद राम ग्राम कुब्जा नगर, तहसील बाढड़ा, जिला चरखी दादरी को सूचना में उल्लिखित रु. 8,74,953.25 (रुपये आठ लाख **चौवहत्तर हजार नौ सौ तिरेपन तथा पच्चीस पैसे मात्र)** की राशि का, उत्ते सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों अंदर प्रतिभुगतान

ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता तथा आम जनता को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये, **09 सितंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है।** ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा आम जनता को एतद्दवारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन

करने के लिये सावधान किया जाता है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन, रु. 8,74,953.25 की एक राशि तथा राशि पर ब्याज हेतु यूको बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्तियों के ऋणमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में है।

#### अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें 130 वर्ग गज (0के 4एम) क्षेत्रफल वाला मकान शामिल है, जो 36के 11एम की गैर-कृषि भूमि में से 4/73 वां अंश है, जो खेवट संख्या 766/708, खतौनी संख्या 921, खसरा संख्या 579/2(36—11) में समाहित है, जो वर्ष 2012—13 की जमाबंदी व अनुसार ग्राम लोहारू, तहसील– लोहारू, जिला भिवानी की राजस्व संपदा में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमा :- उत्तर– राजपाल की संपत्ति, दक्षिण- रास्ता, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- कृष्णा देवी की संपत्ति।

दिनाँक : 09-09-202**5** प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

### कब्जे का नोटिस

ं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः द्वितीय एवं तृतीय तलं, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001 CIN: L65920MH1994PLC080618

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी—मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वार अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी—प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सचना में दर्शाए गए अनुसार लाग् दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और / या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक ब्यय लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

ħ.	उधारकर्ताओं / कानूनी वारिसों	बकाया मांग	सूचना	कब्जे की तिथि	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत		
Ħ.	और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	देयराशियां* (रू०)	की तिथि	एवं प्रकार	परिसम्पत्ति का विवरण		
1	श्री शिव शंकर (ऋणी) श्रीमती कमलेश (सह—ऋणी)	<b>7,84,096</b> / — दिनांक 30.04.2024* तक	28.05.2025	10.09.2025 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खाता नं0 00037 पर खुला प्लाट खेत नं0 136/2/1 मिन (प्राइवेट प्लाट नं0 220 एवं 219 का भाग), ग्राम फाजलपुर महरौला (सनसिटी) तहसील रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित, साइड माप 20x43.7 फुट, प्लाट माप क्षेत्रफल: 81.22 वर्ग मी0/874 वर्ग फुट एवं कवर्ड क्षेत्रफल: 69.70 वर्ग		
					मी0 / 749.9 वर्ग फुट, चौहद्दीः पू: अन्य का खेत, प: रास्ता 5.48 मीटर चौड़ा, उ: अन्य का खेत, द: प्लाट नं0 219 का भाग		
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत (ऋणी) श्रीमती दीपा रावत (सह—ऋणी)	14,67,484 / — दिनांक 30.04.2024* तक	28.05.2025	10.09.2025 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग कौशल्या इन्क्लेव कालोनी में मकान नं0 74, गाटा नं0 63/1 मि, ग्राम बिगवाड़ा, तहसील रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित, साइड माप 24.75 x 45 फुट, प्लाट माप क्षेत्रफल: 103.50 वर्ग मी0/1113.75 वर्ग फुट एवं कवडे क्षेत्रफल: 103.50 वर्ग मी0/1113.75 वर्ग फुट, चौहद्दी: पू: रास्ता 9.09 मीटर, प: प्राइवेट प्लाट नं0 104, उ: रास्ता 9.09 मीटर, द: प्लाट नं0 75		
*1	*भूगतान और / या क्सूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय,लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।						

हालांकि, उपरोक्त दर्शोए गए कानूनी उत्तराधिकारी (याँ) और कानूनी–प्रतिनिधि (याँ) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतदुद्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है। विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (याँ) और कानूनी–प्रतिनिधि (याँ) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई

गई अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन एचडीएफसी के बन्धक के अधीन होगा। कानुनी उत्तराधिकारी (यों) और कानुनी–प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के

भीतर प्रतिभृत परिसम्पत्ति / यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त ऋणी / काननन वारिसों / काननन प्रतिनिधियों से अनरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध हैं जिसे

सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतिलपि प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 12.09.2025 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए

पंजीकत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस. सेनापति बपत मार्ग. लोवर पर्ल (पश्चिम) मम्बई-400 013

# **Navigate markets** with focused insight. Get daily sector trends, market movers, and sharp insights - every day with The Compass in Business Standard. To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

**Business Standard** Insight Out

■ businessstandard X bsindia

business-standard.com